



कोरोनावायरस (COVID-19) कार्यकर्ता सहायता भुगतान

\$450 Coronavirus (COVID-19) Test Isolation Payment - Hindi

\$450 कार्यकर्ता समर्थन भुगतान

यदि आपके शरीर में कोरोनावायरस के लक्षण पैदा हुए हैं, तो आपको जाँच करवानी चाहिए और घर पर रहना चाहिए।

लेकिन आपको हमारे समुदाय के स्वास्थ्य और अपने परिवार के पालन-पोषण के बीच चयन करने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए।

विक्टोरियाई सरकार ने ऐसे कार्यकर्ताओं को समर्थन देने के लिए \$450 के भुगतान की घोषणा की है, जिन्हें कोरोनावायरस की जाँच के बाद एकाँतवास करने की आवश्यकता है - लेकिन जिनके पास उपयोग के लिए अस्वस्थता अवकाश (sick leave) नहीं है।

इसमें आकस्मिक कार्यकर्ता, ठेके पर कार्य करने वाले कार्यकर्ता और वे लोग शामिल हैं जिनके पास आगे कोई अस्वस्थता अवकाश बाकी नहीं रह गया है। विक्टोरिया में रहने वाला कोई भी व्यक्ति यह समर्थन प्राप्त कर सकता है - इस समर्थन को प्राप्त करने के लिए आपको नागरिक या स्थायी निवासी होने की आवश्यकता नहीं है।

यदि आप पात्र हैं, तो यह भुगतान आपको अपनी जाँच के परिणाम की प्रतीक्षा करने की अवधि में घर पर रहने में सहायता देगा। यदि आपके लिए कोरोनावायरस के संक्रमण की पुष्टि की जाती है, या आपको बताया जाता है कि आपको कोरोनावायरस से संक्रमित किसी व्यक्ति के निकट संपर्क के रूप में एकाँतवास करने की आवश्यकता है, तो आपको \$1500 का कठिनाई भुगतान भी प्राप्त होगा।

विक्टोरियाई सरकार ऐसे कार्यकर्ताओं को भी समर्थन प्रदान कर रही है जिनके 16 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं और जिन्हें एकाँतवास करने के लिए कहा गया है। इसका अर्थ है कि यदि आपको अपने बच्चों की देखभाल करने की आवश्यकता है जिन्हें घर में रहने के लिए कहा गया है, और इसके परिणामस्वरूप आप काम पर जाने में असमर्थ हैं तथा आपकी आमदनी नहीं होगी, तो इस स्थिति में भी आपको समर्थन मिल सकता है।

और अधिक जानकारी या आवेदन प्राप्त करने के लिए कोरोनावायरस हॉटलाइन को 1800 675 398 पर कॉल करें या वेबसाइट www.dhhs.vic.gov.au/covid-19-worker-support-payment पर जाएँ।

To find out more information about coronavirus and how to stay safe visit [DHHS.vic – Coronavirus \(COVID-19\)](http://www.dhhs.vic.gov.au/coronavirus)
<www.dhhs.vic.gov.au/coronavirus>

If you need an interpreter, call 131 450

For information in other languages, scan the QR code or visit [DHHS.vic –Translated resources - coronavirus \(COVID-19\)](http://www.dhhs.vic.gov.au/translated-resources-coronavirus-disease-covid-19)

<<https://www.dhhs.vic.gov.au/translated-resources-coronavirus-disease-covid-19>>



For any questions

Coronavirus hotline 1800 675 398 (24 hours)

Please keep Triple Zero (000) for emergencies only

To receive this document in another format phone 1300 651 160 using the National Relay Service 13 36 77 if required, or [email Emergency Management Communications](mailto:em.comms@dhhs.vic.gov.au) <em.comms@dhhs.vic.gov.au>.

Authorised and published by the Victorian Government, 1 Treasury Place, Melbourne. © State of Victoria, Australia, Department of Health and Human Services, 20 July 2020. Available at: [DHHS.vic - Public housing restrictions: information and support](https://www.dhhs.vic.gov.au/public-housing-restrictions-information-and-support)
<<https://www.dhhs.vic.gov.au/information-and-supports-public-housing-restrictions-covid-19>>